



### चर्चविले क्षेत्र में बाढ़ के लिए उपलब्ध आपदा राहत

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अप्रैल, 2022) – फरवरी में चर्चविले (Churchville) में हुई बाढ़ संबंधी घटना की प्रतिक्रिया में, ओनटैरियो सरकार, ब्रैम्पटन के निवासियों और उन परिवारों की सहायता के लिए, [डिजास्टर रिकवरी असिस्टेंस फॉर ओनटैरिअन्स \(डी.आर.ए.ओ.\) प्रोग्राम एक्टिवेट कर रही है \(activating the Disaster Recovery Assistance for Ontarians \(DRAO\) program\)](#), जो इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।

संकट संबंधी सहायता प्रोग्राम, प्राइमरी रिहायश और इसकी मूल सामग्रियों, छोटे कारोबारों, खेत या गैर-लाभ संगठन पर लागू होता है। फंडिंग, एमरजेंसी खर्चों और बीमे के द्वारा कवर न की गई असली प्रॉपर्टी की मरम्मत या रिप्लेसमेंट की लागतों पर लागू होती है। निवासियों से अनुरोध है कि कवरेज और लागतों की समीक्षा करने के लिए, अपने निजी बीमा प्रदाताओं से बात करें।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 है।

योग्यता और कवरेज के बारे में अधिक जानकारी, क्षेत्र का नक्शा और निर्देश, [ontario.ca/disasterassistance](http://ontario.ca/disasterassistance) पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

#### बाढ़ से सुरक्षा

वसंत के आने से तापमान बढ़ने की संभावना है, इसलिए निवासियों को, मौसम के बदलते पैटर्न और उसके मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है।

नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं, जो आप यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि आप बाढ़ आने की स्थिति के लिए तैयार हैं। कैच बेसिन और डाउनस्पाउट्स से अतिरिक्त मलबा हटाएं, ताकि बारिश, पिघलती हुई स्नो और बर्फ आसानी से बह सके और उसके पास कहीं जाने का रास्ता हो।

यदि बाढ़ आती है:

- यदि आपको पानी के बीच में से निकलना पड़े तो कभी भी पावर बंद करने का प्रयास न करें। पावर बंद करने के लिए हाइड्रो वन ब्रैम्पटन (Hydro One Brampton) को संपर्क करें।
- कभी भी ऐसे कमरे में न जाएं, जहां पानी, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, उपकरणों या तारों के संपर्क में आ सकता हो।
- 3-1-1 पर फोन करके या [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) पर ईमेल करके, असाधारण ढंग से एकत्र हुए पानी की रिपोर्ट करें (जैसे रिहायशी स्ट्रीट्स में पानी के बड़े पूल्स)।



पानी नीचे बैठ जाने के बाद:

- फफूंदी और सीलन संबंधी लंबी-अवधि के जोखिमों से रक्षा के लिए, अपने घर/प्रॉपर्टी की अच्छी तरह सफाई करना सुनिश्चित करें।
- बाढ़ वाली सड़कों पर न चलें और न ही ड्राइव करें। एकत्र हुआ पानी, स्ट्रीट्स और साइडवॉक्स की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

तैयार रहें

- जोखिमों के बारे में जानकारी लें और किसी भी ऐसे खतरों के प्रति जागरूक रहें, जो आपके घर को प्रभावित कर सकते हैं।
- एक एमरजेंसी योजना तैयार रखें, जिसके बारे में पूरे घर को पता हो।
- बुनियादी सामान वाली एक एमरजेंसी किट तैयार करें, जो कम से कम 72 घंटों के लिए ठीक रह पाए।
- अपने बीमा प्रदाता से बात करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सही कवरेज है।

अधिक जानकारी और ब्रैम्पटन के एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Emergency Management Office) से, बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सुझावों के लिए, [Brampton.ca/prepared](http://Brampton.ca/prepared) पर जाएं और उन्हें Twitter [@BEMOprepared](https://twitter.com/BEMOprepared) पर फॉलो करें।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)